



# Ahluwalia Contracts (India) Limited

ENGINEERING ♦ DESIGNING ♦ CONSTRUCTION

Online/e-mail

Date: 02-09-2021

To,

Asst. General Manager (Corporate Services)

BSE Limited.

25<sup>th</sup> Floor, P.J.Towers

Dalal Street,

Mumbai - 400001

Asst. Vice President - Listing,

National Stock Exchange of India Ltd.

5<sup>th</sup> Floor, Exchange Plaza,

Bandra Kurla Complex ,

Bandra (East) Mumbai- 400051

Scrip Code: NSE: - AHLUCONT, BSE: - 532811 - ISIN Code: INE758C01029

Sub: Compliance with Regulation 47 of the SEBI (LODR), Regulations 2015 as amended

Ref.: Advertisement- Notice of 42nd Annual General Meeting

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. We enclose copies of the newspaper clippings of the advertisement published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on 2nd September, 2021 in respect of intimation regarding 42nd Annual General Meeting of the Company to be held on Friday, 24th September, 2021 at 03.00 P.M. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM")

The Notice has been sent to all the Members on 31-08-2021, whose names appeared in the Register of Members / Record of Depositories as on 27-08-2021. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 18th day of September 2021 to Friday, 24th day of September 2021 (*Both days inclusive*) for the purpose of the AGM and may follow the same instructions as mentioned for remote e-voting in the Notice.

Kindly take the same on your record and oblige.

You are also requested to up-date our Company records/data in BSE website & NSE website.

Yours faithfully,

For Ahluwalia Contracts (India) Ltd

(Vipin Kumar Tiwari)

Company Secretary

Encl.: as above

Copy to:



1	Manager (Listing), Calcutta Stock Exchange Ltd, 7, Lyons Range, Kolkata - 700001, Ph./Fax: 033-22104470-4468	2	M/s Link Intime India Pvt. Ltd Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1, Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058, Tel. No.- 011- 49411000
---	--	---	---

Registered & Corporate Office: A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020

Phone: 011-49410500, 502, 517, & 599, Fax : 011-49410553 E-mail: mail@acilnet.com Website: www.acilnet.com

(Corporate Identification Number : L45101DL1979PLC009654)



NOTED

Blox, Madhapur  
0444444  
3owermexch.net

The Notice of the AGM of the company will be sent to the shareholders holding shares as on cut-off date for the dispatch in accordance with the applicable laws on their registered email address in due course.

BY ORDER OF THE BOARD,  
SHARIKA ENTERPRISES LIMITED  
Sd/-  
Rajinder Kaul  
Managing Director

Place: Noida  
Date: September 02, 2021



**AHLUWALIA CONTRACTS (INDIA) LIMITED**

(Corporate Id Number: L45101DL1979PLC009654)

Regd. Office: Plot No. A-177, Okhla Industrial Area,

Phase-I, New Delhi-110020

Website: www.acilinet.com, E-mail: cs.corporate@acilinet.com

**NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING**

The Notice is hereby given that:

- The 42nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, the 24th day of September, 2021 at 3.00 p.m. hosted at A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of AGM;
- Notice of AGM and Annual Report for Financial Year 2020-21 has been sent to all the members whose name appeared in the Register of Members as on Friday, 27th August, 2021 through electronic mode to the shareholders whose e-mail ids are registered with the Company Registrar & Transfer Agent (RTA) or with the Depository Participants in accordance with the General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020, and May 5, 2020 respectively (hereinafter collectively referred as "MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The dispatch of the Notice of AGM and Annual Report through e-mail has been completed on or before 31st August, 2021;
- In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the shareholders holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on cut-off date of i.e. Friday, 17th September, 2021, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Link Intime India Pvt. Limited ("LIPL") from a place other than venue of AGM ("Remote E-Voting"). All the shareholders are informed that:
  - The remote e-Voting shall commence on Tuesday, 21st September, 2021 at 10:00 A.M.;
  - The remote e-Voting shall end on Thursday, 23rd September, 2021 at 5:00 P.M.;
  - The remote e-Voting shall not be allowed beyond the above said date and time.
- Any person who acquires shares of the Company and becomes shareholder after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. Friday, 17th September, 2021, may obtain the Login-Id and Password by sending a request to the Company/RTA;
- A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the Depositories as on cut-off date of i.e. Friday, 17th September, 2021 shall only be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as voting in the AGM;
- Shareholders may note that: a) the remote e-Voting module shall be disabled by LIPL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through Ballot Paper shall be made available at the AGM; and c) the shareholders who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again;
- The Notice of AGM is available on the Company's website www.acilinet.com and also on the LIPL's website www.linkintime.co.in;
- In case of queries or grievances, shareholders may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-Voting User Manual for members at www.instavote.linkintime.co.in under help section or write an email to notices@linkintime.co.in or call on number at 022-49186000. Shareholders may also write to the Company Secretary & Compliance Officer of the Company at cs.corporate@acilinet.com or at the Registered Office of the Company, address mentioned above for the grievances connected with facility for voting by electronic means; and
- In terms of Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and as per the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 18th September, 2021 to Friday, 24th September, 2021 (both days inclusive) for Annual General Meeting.

For Ahluwalia Contracts (India) Ltd.  
Sd/-  
(Vipin Kumar Tiwari)  
Company Secretary

New Delhi,  
September 1, 2021

**M.K. EXIM (INDIA) LIMITED**

CIN: L63040RJ1992PLC007111

Registered Office: G1/150, Garment Zone, E.P.I.P. RICO Industrial Area, Sitapura, Sanganeer, Jaipur-302022, Rajasthan Phone: 0141-3937500, 3937501, Fax: +91-141-3937502

E-mail: mkexim@mkexim.com, complianceofficer@mkexim.com Web-Site: www.mkexim.com

**NOTICE OF AGM AND E-VOTING**

Notice is hereby given that the 29th AGM of members of the company will be held on Wednesday, 29th September, 2021 at 11.00 A.M IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the ordinary and special business as mention in the notice together with explanatory statement under Section 102 of the Companies Act, 2013. Members participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act 2013. The shareholders are hereby informed that the company has sent the notice of the AGM and the standalone and consolidated financial statements for the financial year 2020-21, along with Board's Report,

provided in the Notice to the shareholders.

- The 35th AGM Notice will be sent to the shareholders in accordance with the applicable laws on their registered email addresses in due course.

For Cosmo Ferrites Limited

Sd/-

Aditya Sharma

Company Secretary & Compliance Officer

New Delhi  
Date: September 1, 2021

**TRINITY LEAGUE INDIA LIMITED**

Regd. Off. : A-23, Mandakini Enclave, Alaknanda, GK II, New Delhi-110019

Contact- 011-40562329, website: www.trinitygroup.ind.in

E-mail: trinityleague@trinitygroup.ind.in

**Notice of the 33rd Annual General Meeting**

It is hereby informed that the Thirty Third Annual General Meeting (33rd AGM) of Trinity League India Limited will be held on Monday the 27th day of September 2021 at 11.30 AM. Through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM only through e-voting facility.

The AGM will be held only through VC / OAVM in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and circulars dated May 5, 2020, April 8, 2020 and April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular dated May 12, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs. The instructions for joining the AGM electronically are provided in the Notice of the AGM.

Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21 is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or CDSL/NSDL ("Depositories") and will also be available on the Company's website www.trinitygroup.ind.in and website of the Bombay Stock Exchange i.e. at www.bseindia.com.

Members who have not registered their e-mail addresses and in consequence the Annual Report, including Notice of AGM and e-voting instructions could not be serviced, may get their email address and mobile number registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Beetal Financial & Computer Services (P) Limited, by sending mail on investor@beetalfinancial.com for the same along with scanned copy of the signed request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for obtaining the Annual Report, Notice of AGM and the e-voting instructions.

The remote e-voting period will commence from 24th September, 2021 at 10:00 am and will end at 5:00 pm on 26th September, 2021. During this period the eligible shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialised form, may cast their vote electronically. The e-voting module will be disabled by CDSL for voting thereafter i.e. voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on September 26, 2021. Facility for e-voting shall also be made available during the AGM to those Members who attend the AGM and who have not already cast their vote. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/ participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

The cut-off date for determining the eligibility of members for voting through remote e-voting and e-voting at the AGM is Monday, September 20, 2021. Any person, who becomes a member of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to investor@beetalfinancial.com to cast his/her vote. The detailed procedure for obtaining the login ID and password and exercising e-voting is provided in the Notice of AGM.

Members holding shares in electronic form are requested to intimate any change in their bank mandates to their Depository Participants with whom they are maintaining their demat accounts. The Company or its RTA cannot act on any request received directly from the Members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members. The Members holding shares in physical form are requested to advise any change in their bank mandate immediately to Beetal House, 3rd Floor 99 Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi-110082.

By Order of the Board of Directors,  
For Trinity League India Limited

Sd/-

Piyush Kumar Srivastava

Company Secretary

Place : New Delhi  
Date : September 01, 2021

**BEETEL TELETECH LIMITED**

(Formerly known as Brightstar Telecommunications India Limited)

Regd. Office: First Floor, Plot No. 16, Udyog Vihar, Phase IV,

Gurgaon - 122015, Haryana, India

Corporate Identification Number: U32204HR1999PLC042204

Ph. No. +91 124 4823500 and Fax No. +91 124 4146130

Website: www.beetel.in, Email: legal.secretariat@beetel.in

**NOTICE OF 22nd ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting ("AGM") of the members of Beetal Teletech Limited ("the Company") will be held on Thursday, 23rd day of September, 2021 at 3:30 P.M. through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder read with Circular Nos. 14/2020 (dated 8th April 2020), 17/2020 (dated 13th April 2020), 20/2020 (dated 5th May 2020) and 02/2021 (dated 13th January, 2021), respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") without the physical presence of the Members at a common venue.

Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report - 2020-2021 (for the financial year ended 31st March, 2021) of the Company have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Registrar & Transfer Agent of the Company or Depository Participant(s). The dispatch of Notice of AGM has been completed on 31st August 2021. Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular(s). The Notice of AGM and the Annual Report for 2020-2021 are available on the website of the Company at www.beetel.in and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Members holding shares in physical mode and who have not updated their e-mail addresses with the Company are requested to update their e-mail addresses by sending email request at admin@mceregistrars.com and/or legal.secretariat@beetel.in along with scanned copy of the signed request letter mentioning the name and address of the Member, self-attested copy of the PAN card and self-attested copy of any document (example: Aadhar, Driving License, Election Identity Card, Passport). Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their e-mail addresses with the relevant Depository Participants. The Notice of the AGM contains the instructions regarding the manner, in which shareholders can cast their vote through remote e-voting or by a-voting at the time of AGM. After updation of email ID, members may obtain the USER ID and Password by sending a request at





**अहलुवालिया काउन्ट्रैड्स (इंडिया) लिमिटेड**

(CIN No. L45101DL1979PLC009654)

पंजी: कार्यालय: ए-177, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1 नई दिल्ली-110020  
वेबसाइट: www.acinet.com, ई-मेल: cs.corporate@acinet.com

**वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद होने तथा ई-वोटिंग की सूचना**

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि

- कम्पनी की 42वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021 को 3.00 बजे अप. में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विडियो माध्यम (ओएवीएम) द्वारा ए-177, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1 नई दिल्ली- 1210020 में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।
- एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2020-21 के लिये वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी साधारण सच्युलर नं. 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 तिथि क्रमशः 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 5 मई, 2020 ("एमसीए सच्युलर तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी सच्युलर नं. SEBI/HO/CFD/CMD1/P/2020/79 तिथि 12 मई, 2020 तथा सच्युलर नं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 तिथि 5 जनवरी, 2021 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ऐसे सभी शेयरधारकों लिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/ रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट (आरटीए) अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत है तथा शुक्रवार, 27 अगस्त, 2021 को जिन सदस्यों के नाम सदस्यों के रजिस्टर में शामिल हैं, को भेज दिये गये हैं। ई-मेल द्वारा एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण 31 अगस्त, 2021 को या पूर्व में पूरा कर लिया गया है।
- कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, समग्र-समय पर यथा-संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (एलओआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 17 सितंबर, 2021 को श्रेणिक पद्धति या डिपॉजिटरीलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले शेयर धारक एजीएम के अन्यत्र किसी स्थान से लिंक इन्टरफेस इंडिया प्रा. लिमिटेड ("एलआईआईपीएल") की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में वर्णित साधारण तथा विशेष व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
  - रिपोर्ट ई-वोटिंग मंगलवार, 21 सितंबर, 2021 को 10.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी।
  - रिपोर्ट ई-वोटिंग गुरुवार, 23 सितंबर, 2021 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी।
  - उक्त तिथि एवं समय के बाद रिपोर्ट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 17 सितंबर, 2021 को शेयर धारित करते हैं, वे कम्पनी/आरटीए के पास अनुरोध भेजकर लॉगिन-आईडी तथा पारवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
- जिन व्यक्तियों का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 17 सितंबर, 2021 को डिपॉजिटरीज द्वारा प्रेषित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वे ही रिपोर्ट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में मतदान के लिये अधिकृत होंगे।
- शेयरधारक यह ध्यान रखें कि: (क) उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद एलआईआईपीएल द्वारा मतदान के लिये रिपोर्ट ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जाएगी तथा शेयर धारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर एकमत मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी; (ख) एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तथा (ग) जो शेयरधारक एजीएम से पूर्व रिपोर्ट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर देते हैं, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, किन्तु फिर से मतदान के लिये अधिकृत नहीं होंगे।
- एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट [www.acinet.com](http://www.acinet.com) तथा साथ ही एलआईआईपीएल की वेबसाइट [www.linkintime.co.in](http://www.linkintime.co.in) पर उपलब्ध है।
- किसी पृष्ठताड़ अथवा समस्याओं के लिये शेयरधारक सहायता खंड के अंतर्गत [www.instavote.linkintime.co.in](http://www.instavote.linkintime.co.in) पर सदस्यों के लिये Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा सदस्यों के लिये ई-वोटिंग बुजर / मैन्युअल देखें अथवा [enotices@linkintime.co.in](mailto:enotices@linkintime.co.in) पर ई-मेल करें अथवा 022-49186000 पर कॉल करें। शेयर धारक [cs.corporate@acinet.com](mailto:cs.corporate@acinet.com) पर अथवा कम्पनी के उक्त पते पर पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी के कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी को भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान की सुविधा से जुड़ी समस्याओं के लिये भी लिख सकते हैं।
- कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कम्पनी के अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी के सूचीयन विनियमनों के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें वार्षिक आम सभा के लिये सनिवार, 18 सितंबर, 2021 से शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

अहलुवालिया काउन्ट्रैड्स (इंडिया) लि. के लिये  
हस्ता./-  
(विपिन कुमार तिवाारी)  
कम्पनी सचिव

नई दिल्ली  
1 सितंबर, 2021

**विकल्प सिक्योरिटीज लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय: 25/38, कराची खाना, कानपुर-208001  
CIN: L65993UP1986PLC007727,  
Contact: Mob: 0512-2372665

E-mail: [vikalpsecuritieslimited@gmail.com](mailto:vikalpsecuritieslimited@gmail.com)  
Website: [www.vikalpsecurities.com](http://www.vikalpsecurities.com)

**वार्षिक सामान्य सभा और ई-वोटिंग की सूचना**  
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 35वीं वार्षिक सामान्य सभा शुक्रवार 24 सितंबर, 2021 को प्रातः 11.00 बजे वाडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नोटिस में बताये गये प्रायोजनों हेतु आयोजित



GOVERNMENT OF INDIA  
NATIONAL CAPITAL TERRITORY  
OFFICE OF THE EXECUTIVE  
TEHSILDAR, DELHI CANTT.  
EXCHANGE BUILDING,  
PLACE, DELHI CANTT.

F.No.TEH/K/... Dated: 27.08.2021

**PUBLIC NOTICE**  
It is informed that Airport Authority of India (AAI) has started measuring 5106 Acres (Approx.) at Airport (IGI) and Rangpuri, New and Sazra villages. In the said village of Sub Division Delhi Cantt i.e. and Bagdola are also included and acquired by the AAI and are part and parcel Therefore, if survey conducted by AAI, all interested persons may have any objections against this survey within a period of 09.2021 onwards.  
(RAM RATAN MEENA)  
TEHSILDAR DELHI CANTT.

**सब्रिमा एंड होल्डिंग्स लि.**  
(CIN: L27100DL1984PLC008467)  
पंजी: कार्यालय: ए-177, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1 नई दिल्ली-110020  
वेबसाइट: [www.sabrimala.co.in](http://www.sabrimala.co.in)

**वार्षिक साधारण सभा, रिपोर्ट ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंद होने की सूचना**

कम्पनी की 37वीं वार्षिक साधारण सभा शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021 को 3.00 बजे अप. में कम्पनी के पंजी. कार्यालय: 906, डी-माल नेताजी सुभाष नगर, नई दिल्ली-110024 में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कम्पनी के अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी के सूचीयन विनियमनों के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें वार्षिक आम सभा के लिये सनिवार, 18 सितंबर, 2021 से शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

अहलुवालिया काउन्ट्रैड्स (इंडिया) लि. के लिये  
हस्ता./-  
(विपिन कुमार तिवाारी)  
कम्पनी सचिव

क्र० सं०	विवरण
1.	ग्राम पुराना पर खरक
2.	ग्राम सख्तपुर
3.	ग्राम सख्तपुर
4.	ग्राम सख्तपुर
5.	ग्राम सख्तपुर
6.	ग्राम सख्तपुर
7.	ग्राम सख्तपुर

**"फार्म नं. आईएनसी-26"**  
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार)

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित करने के लिए समावेश पत्र में प्रकाशित होने वाला निगमन केन्द्रिय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा, 13 (4) और कम्पनी (निगमन) नियमों, 2014 के नियम 30 (5) के माफले में

सिल्वर टावर प्राइवेट लिमिटेड  
CIN: U70109DL1996PTC082907

जिनका पंजीकृत कार्यालय: 721, अक्षयम अपार्टमेंट, फर्स्ट फ्लोर सैक्टर-19 हारका, दिल्ली 110075 में है, के माफले में।

एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कम्पनी द्वारा पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "महाराष्ट्र राज्य" में स्थानान्तरित करने के लिए समावेश पत्र में प्रकाशित विशेष प्रस्ताव के तर्जुमों में कम्पनी के मैनेजिंग डॉफ एग्रीमेंट के परिसरतन की पुष्टि लेने के लिये कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केन्द्रिय सरकार को आवेदन करना प्रस्तावित करने है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एपीसी-21 पोर्टल ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विशेष कारण उल्लिखित होंगे को साथ अपनी आपसित क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र (एनआर) के इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक को भी-2 विंग, द्वितीय मंज, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के पते पर पंजीकृत जग प्रेषण भेज सकता है या तुरंत कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कम्पनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजें।

721, अक्षयम अपार्टमेंट, फर्स्ट फ्लोर सैक्टर-19 हारका, दिल्ली 110075

कृते की ओर से  
सिल्वर टावर प्राइवेट लिमिटेड  
हस्ता./-  
(राजीव शर्मा)  
निदेशक

दिनांक: 30.08.2021  
स्थान: नई दिल्ली  
टीआरएन: 00089432

**प्ररूप संख्या आईएनसी-26**

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार)

केन्द्रिय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) के तर्जुमों में कम्पनी के मैनेजिंग डॉफ एग्रीमेंट के परिसरतन की पुष्टि लेने के लिये कम्पनी अधिनियम, 2014 के नियम 30 (5) (i) के माफले में

ग्लोबल टैडर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड  
(CIN: U74140DL2013PTC255703)

जिनका पंजीकृत कार्यालय: 25-डी, सीजीएचएच, उज्जवल अपार्टमेंट, मिजली विकास पुरी, दिल्ली-110059 में है, के माफले में

एतद्वारा सर्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कम्पनी केन्द्रिय सरकार के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन को प्रस्ताव करती है, जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "महाराष्ट्र राज्य" में स्थानान्तरित करने के लिए समावेश पत्र में प्रकाशित विशेष प्रस्ताव के तर्जुमों में कम्पनी के मैनेजिंग डॉफ एग्रीमेंट के परिसरतन की पुष्टि लेने के लिये कम्पनी अधिनियम, 2014 के नियम 30 (5) (i) के माफले में

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एपीसी-21 पोर्टल ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विशेष कारण उल्लिखित होंगे को साथ अपनी आपसित क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भी-2 विंग, दूसरा मंज, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत जग प्रेषण भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कम्पनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

25-डी, सीजीएचएच, उज्जवल अपार्टमेंट, मिजली विकास पुरी दिल्ली-110059

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से  
ग्लोबल टैडर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड  
हस्ता./-  
(राजीव शर्मा (निदेशक))

दिनांक: 01.09.2021  
स्थान: दिल्ली  
टीआईएन: 05612000